

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

लडकी से दहेज मागने व जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.10.20 को पिड़िता/वादिनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अनन्त पुत्र रामाश्रय ग्रा० सेमरहा ने नवरात्री के प्रथम दिन शादी करने के लिए रानी की सराय जनपद आजमगढ़ थाने पर बुलाया था। मेरे परिवार व रिश्तेदार सभी 10 बजे थाने पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन अब वो थाने पर आने व शादी से इन्कार कर रहा है। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। शादी का कार्ड बट चुका है। अगर इस दिन शादी नहीं होती है तो मैं अनन्त पर मुकदमा करके आत्महत्या करूंगी। हमे समाज में जिल्लत भरी जिन्दगी जीनी पड़ रही है। पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जिसका जिम्मेदार अनन्त एवं उसका पूरा परिवार है। अब उनका कहना है कि मुझे दहेज में 10 लाख रु०, चार पहिया वाहन और मेरे नाम से जमीन व घर दोगे तो शादी करूंगा नहीं तो ऐसे ही समाज में बेइज्जत करूंगा मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 151/20 धारा 504/506/376 भादवि व ¾ डी०पी० एक्ट बनाम अनन्त यादव पुत्र रामाश्रय यादव सा० सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ०नि० अरविन्द कुमार यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के निर्देशन में उ०नि० श्री अरविन्द कुमार यादव मय हमराही फोर्स के साथ कस्बा रानी की सराय में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत हो रही थी कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि बेलईसा चौराहा पर दिनांक 20.10.20 को अभियुक्त अनन्त यादव मौजूद है इस सूचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्त अनन्त यादव पुत्र रामाश्रय यादव सा० सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 151/20 धारा 504/506/376 भादवि व ¾ डी०पी० एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

अनन्त यादव पुत्र रामाश्रय यादव सा० सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० अरविन्द कुमार यादव, का० शिवकुमार चौधरी, का० कमाल अंसारी, थाना-रानी की सराय, जनपद आजमगढ़